



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 61] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 1977/माघ 20, 1898

No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 1977/MAGHA 20, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February 1977

S.O. 152(E).—In pursuance of clauses (a), (b) and (d) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its notification No. 56/75-I, dated 31 January, 1975 published as S.O. 61(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3(11), dated 31 January, 1975, the Commission hereby specifies—

- the National Parties and the symbols respectively reserved for them in Table 1,
- the State Parties, the State or States in which they are State Parties and the symbols respectively reserved for them in such State or States in Table 2, and
- the free symbols for each State in Table 3.

TABLE—1

National Parties	Reserved Symbols
1	2
1. Indian National Congress	• Calf and Cow
2. Indian National Congress (Organisation)	• Charkha being plied by a woman
3. Bhartiya Jana Sangh	• Lamp
4. Communist Party of India	• Ears of Corn and Sickle
5. Socialist Party	• Tree
6. Communist Party of India (Marxist)	• Hammer, Sickle and Star
7. Bharatiya Lok Dal	• Haldhar within wheel (Chakra Hal-dhar)

TABLE—2

Name of the State	Name of the State Party	Reserved Symbol
1	2	3
Haryana	1. Vishal Haryana 2. Akhil Bharatiya Arya Sabha	Rising Sun Swastik within a circle
Jammu and Kashmir	Jammu and Kashmir National Conference	Plough
Kerala	1. Muslim League 2. Kerala Congress 3. Revolutionary Socialist Party 4. Muslim League (Opposition)	Ladder Horse Spade and Stoker Boat
Maharashtra	Peasants' and Workers' Party	Cart
Manipur	1. Manipur People's Party 2. Manipur Hills-Plain Union 3. Kuki National Assembly	Bicycle Lion (since frozen) Two leaves
Nagaland	United Democratic Front	Cock
Punjab	Shiromani Akali Dal	Scales
Tamil Nadu	Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun
Goa, Daman and Diu	1. Maharashtrawadi Gomantak 2. United Goans (Sequeira Group)	Lion Two leaves
Pondicherry	1. Dravida Munnetra Kazhagam 2. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun Two leaves

TABLE—3

Name of the State	Free Symbols
1	2
1. Andhra Pradesh	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Elephant, (5) Flaming Torch, (6) Hand, (7) Pot, (8) Railway Engine, (9) Rising Sun, (10) Scales, (11) Sparrow, (12) Swastik within a circle, (13) Tiger, (14) Tractor, and (15) Two leaves.
2. Assam	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Lion, (5) Pot, (6) Railway Engine, (7) Scales, (8) Spade, (9) Spade and Stoker, (10) Sparrow, and (11) Two leaves.
3. Bihar	(1) A woman carrying basket on her head, (2) Bicycle, (3) Boat, (4) Bow and Arrow, (5) Cart, (6) Cultivator cutting crop, (7) Drum, (8) Elephant, (9) Fish, (10) Horse and Rider, (11) Ladder, (12) Lion, (13) Pot, (14) Railway Engine, (15) Rising Sun, (16) Scales, (17) Spade and Stoker, (18) Swastik within a circle, and (19) Two leaves.
4. Gujarat	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Cultivator cutting crop, (5) Cultivator winnowing grain, (6) Elephant, (7) Flaming Torch, (8) Horse, (9) Lion, (10) Plough, (11) Pot, (12) Railway Engine, (13) Rising Sun, (14) Scales, (15) Sparrow, (16) Tractor, (17) Two cultivators cutting crop, and (18) Two leaves.
5. Haryana	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Elephant, (4) Hand, (5) Horse and Rider, (6) Lion, (7) Plough, (8) Scales, (9) Tractor, and (10) Two leaves.
6. Himachal Pradesh	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Farmer winnowing grain, (4) Lion, (5) Railway Engine, (6) Rising Sun, (7) Scales, (8) Sparrow, and (9) Two leaves.

1

2

-
7. Jammu & Kashmir . . . (1) Bicycle, (2) Boat, (3) Car, (4) Cart, (5) Hand, (6) Rising Sun, (7) Spade, and (8) Two leaves.
8. Karnataka . . . (1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Cart, (5) Cultivator cutting crop, (6) Elephant, (7) Hand, (8) Lion, (9) Pot, (10) Railway Engine, (11) Rising Sun, (12) Scales, (13) Spade, (14) Sparrow, (15) Tractor, and (16) Two leaves.
9. Kerala . . . (1) Bicycle, (2) Camel, (3) Coconut tree bearing fruits, (4) Flaming Torch, (5) Pot, (6) Railway Engine, (7) Rising Sun, (8) Scales, (9) Sparrow, (10) Swastik within a circle, and (11) Two leaves.
10. Madhya Pradesh . . . (1) Bicycle, (2) Bow and Arrow, (3) Cultivator winnowing grain, (4) Elephant, (5) Horse and Rider, (6) Lion, (7) Pot, (8) Railway Engine, (9) Rising Sun, (10) Spade and Stoker, (11) Swastik within a circle, and (12) Two leaves.
11. Maharashtra . . . (1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Elephant, (5) Horse, (6) Lion, (7) Pot, (8) Railway Engine, (9) Rising Sun, (10) Scales, (11) Sparrow, (12) Swastik within a circle, (13) Two leaves, and (14) Two Swords and a Shield.
12. Manipur . . . (1) Camel, (2) Elephant, (3) Horse, (4) Pot, (5) Scales, and (6) Spade.
13. Meghalaya . . . (1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Lion, (5) Pot, (6) Railway Engine, (7) Scales, (8) Spade, (9) Sparrow, and (10) Two leaves.
14. Nagaland . . . (1) A pair of pigeons, (2) Bow and Arrow, (3) Elephant, (4) Flaming Torch, (5) Hornbill, (6) Long Drum, (7) Mug, and (8) Tiger.
15. Orissa . . . (1) Aeroplane, (2) Bicycle, (3) Boat, (4) Bow and Arrow, (5) Camel, (6) Dam, (7) Drum, (8) Elephant, (9) Horse, (10) Lion, (11) Pot, (12) Railway Engine, and (13) Two leaves.
16. Punjab . . . (1) Bicycle, (2) Bow and Arrow, (3) Camel, (4) Eagle about to fly, (5) Elephant, (6) Flaming Torch, (7) Horse and Rider, (8) Lion, (9) Railway Engine, (10) Rising Sun, (11) Swastik within a circle, (12) Tractor, and (13) Two leaves.
17. Rajasthan . . . (1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Elephant, (5) Horse, (6) Lion, (7) Rising Sun, (8) Scales, (9) Sparrow, (10) Two leaves, and (11) Umbrella.
18. Sikkim . . . (1) Bicycle, (2) Bow and Arrow, (3) Elephant, (4) Hand, (5) Horse, (6) Pot, (7) Rising Sun, (8) Scales, (9) Tiger, (10) Two leaves, and (11) Umbrella.
19. Tamil Nadu . . . (1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Elephant, (5) Lion, (6) Pot, (7) Scales, (8) Spade, (9) Sparrow, (10) Swastik within a circle, and (11) Two leaves.
20. Tripura . . . (1) Bicycle, (2) Horse, (3) Lion, (4) Pot, (5) Rising Sun, (6) Scales, (7) Spade, (8) Sparrow, (9) Swastik within a circle, and (10) Two leaves.
21. Uttar Pradesh . . . (1) Aeroplane, (2) Bicycle, (3) Boat, (4) Bow and Arrow, (5) Camel, (6) Car, (7) Dam, (8) Elephant, (9) Fish, (10) Flaming Torch, (11) Hand Pump, (12) Horse and Rider, (13) Ladder, (14) Lion, (15) Pot, (16) Railway Engine, (17) Rising Sun, (18) Scales, (19) Sewing Machine, (20) Sparrow, (21) Swastik within a circle, (22) Tractor, (23) Two cultivators cutting crop, and (24) Two leaves.
22. West Bengal . . . (1) A woman carrying basket on her head, (2) A pair of pigeons, (3) Bicycle, (4) Bow and Arrow, (5) Camel, (6) Cultivator cutting crop, (7) Drum, (8) Eagle about to fly, (9) Elephant, (10) Fish, (11) Flaming Torch, (12) Hand Pump, (13) Horse and Rider, (14) Ladder, (15) Lion, (16) Plough, (17) Pot, (18) Radio, (19) Railway Engine, (20) Rising Sun, (21) Scales, (22) Sewing Machine, (23) Ship, (24) Spade and Stoker, (25) Swastik within a circle, (26) Tractor, and (27) Two leaves.
23. Andaman and Nicobar Islands . . . (1) Bicycle, (2) Boat, (3) Rising Sun, (4) Scales, and (5) Two leaves.
-

I	2
24. Arunachal Pradesh	(1) Boat, (2) Bow and Arrow, (3) Elephant, (4) Fish, (5) Hand, (6) Hornbill, (7) Horse, (8) Mithun, (9) Plough, (10) Pot, (11) Rising Sun, (12) Scales, (13) Spade, (14) Tiger, (15) Two leaves, and (16) Umbrella.
25. Chandigarh	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Horse, (5) Railway Engine, (6) Rising Sun, (7) Scales, (8) Tractor, and (9) Two leaves.
26. Dadra and Nagar Haveli	(1) Bicycle, (2) Horse, (3) Scales, and (4) Two leaves.
27. Delhi	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Bow and Arrow, (4) Camel, (5) Elephant, (6) Flaming Torch, (7) Horse and Rider, (8) Ladder, (9) Lion, (10) Pot, (11) Rising Sun, (12) Scales, and (13) Two leaves.
28. Goa, Daman & Diu	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Horse, (5) Pot, (6) Scales, and (7) Spade.
29. Lakshadweep	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Elephant, (5) Horse, (6) Scales, (7) Spade and (8) Two leaves.
30. Mizoram	(1) Bicycle, (2) Boat, (3) Camel, (4) Eagle about to fly, (5) Lion, (6) Pot, (7) Railway Engine, (8) Scales, (9) Spade, (10) Spade and Stoker, (11) Sparrow, and (12) Two leaves.
31. Pondicherry	(1) Bicycle, (2) Horse and Rider, (3) Ladder, (4) Lion, (5) Railway Engine, (6) Scales, (7) Spade, and (8) Sparrow.

[No. 56/77-II]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1977

क्र० आ० 152(अ) —निर्वाचन आयोग, निवचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) तथा उप-पैरा (2) के अनुमरण में और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(ii), तारीख 31 जनवरी, 1975 के अमाधारण अव में क्र० आ० 61 (अ०) के रूप में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं० 56/75-I, तारीख 31 जनवरी, 1975 को अतिष्ठित करते हुए—

(क) सारणी 1 में राष्ट्रीय दल तथा उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक,

(ख) सारणी 2 में राज्यीय दल, वह राज्य अथवा वे राज्य जिनमें वे राज्यीय दल है तथा ऐसे राज्य अथवा राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक, तथा

(ग) सारणी 3 में प्रत्येक राज्य के लिए मुक्त प्रतीक,

एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है :—

सारणी-1

राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक
1	2
1. इण्डियन नेशनल कांग्रेस	गाय और बछड़ा
2. इण्डियन नेशनल कांग्रेस (संगठन)	चरखा कातनी हुई महिला
3. भारतीय जनसंघ	वीप
4. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	बाल और हसिया
5. सोशलिस्ट पार्टी	पेड
6. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	हथौड़ा, हसिया और सितारा
7. भारतीय लोक दल	चक्र में हलधर (चक्र हलधर)

सारणी—2

राज्य का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक
1	2	3
हरियाणा	1 विशाल हरियाणा 2 अखिल भारतीय आर्य सभा	उदीयमान सूर्य वृत्त के भीतर स्वस्तिक
जम्मू-कश्मीर	जम्मू और कश्मीर नेशनल काफ्रेम	हल
केरल	1. मुस्लिम लीग 2. केरल काफ्रेम 3 रिबोन्डूशनरी मोनलिस्ट पार्टी 4 मुस्लिम लीग (विपक्ष)	मीठी घोडा फावड़ा और बेलचा नाव
महाराष्ट्र	पीपल्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	गाड़ी
मणिपुर	1. मणिपुर पीपुल्स पार्टी 2. मणिपुर हिन्स—प्लेन युनियन 3 कुकी नेशनल अगेम्बली	साइकिल शेर (अनुपलभ्य बना दिया गया) दो पत्तिया
नागालैंड	यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	मुर्गा
पंजाब	शिरोमणि अकाली दल	तराजू
तमिलनाडु	द्रविड मुन्नेत्र खडगम	उदीयमान सूर्य
गोवा, दमण और दीव	1 महाराष्ट्रवादी गोमान्तक 2 यूनाइटेड गोअन्स (संविधवा ग्रुप)	शेर दो पत्तिया
पांडिचेरी	1 द्रविड मुन्नेत्र खडगम 2 अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुन्नेत्र खडगम	उदीयमान सूर्य दो पत्तिया

सारणी—3

राज्य का नाम	मुक्त प्रतीक
1	2
1 आंध्र प्रदेश	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊट, (4) हाथी, (5) मशाल, (6) हाथ, (7) कलश, (8) रेल का इंजन, (9) उदीयमान सूर्य, (10) तराजू, (11) गौरैया, (12) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (13) बीता, (14) ट्रैक्टर तथा (15) दो पत्तिया ।

1

2

2. भ्रामास . . . (1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊट, (4) शेर, (5) कलश, (6) रेल का इंजन, (7) तराजू, (8) फावड़ा, (9) फावड़ा और बेलचा, (10) गौरैया तथा (11) दो पत्तियां ।
3. बिहार . . . (1) सिर पर टोकरी ले जाती हुई स्त्री, (2) साइकिल, (3) नाव, (4) तीर-कमान, (5) गाड़ी, (6) फसल काटता हुआ किसान, (7) ड्रम, (8) हाथी, (9) मछली, (10) घोड़ा और सवार, (11) सीढ़ी, (12) शेर, (13) कलश, (14) रेल का इंजन, (15) उदीयमान सूर्य, (16) तराजू, (17) फावड़ा और बेलचा, (18) वृत्त के भीतर स्वस्तिक तथा (19) दो पत्तियां ।
4. गुजरात . . . (1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊट, (4) फसल काटता हुआ किसान, (5) अनाज बरसाता हुआ किसान, (6) हाथी, (7) मशाल, (8) घोड़ा, (9) शेर, (10) हल, (11) कलश, (12) रेल का इंजन, (13) उदीयमान सूर्य, (14) तराजू, (15) गौरैया, (16) ट्रैक्टर, (17) फसल काटते हुए दो किसान तथा (18) दो पत्तियां ।
5. हरियाणा . . . (1) साइकिल, (2) नाव, (3) हाथी, (4) हाथ, (5) घोड़ा और सवार, (6) शेर, (7) हल, (8) तराजू, (9) ट्रैक्टर तथा (10) दो पत्तियां ।
6. हिमाचल प्रदेश . . . (1) साइकिल, (2) नाव, (3) अनाज बरसाता हुआ किसान, (4) शेर, (5) रेल का इंजन, (6) उदीयमान सूर्य, (7) तराजू, (8) गौरैया तथा (9) दो पत्तियां ।
7. जम्मू-कश्मीर . . . (1) साइकिल, (2) नाव, (3) कार, (4) गाड़ी, (5) हाथ, (6) उदीयमान सूर्य, (7) फावड़ा तथा (8) दो पत्तियां ।
8. कर्णाटक . . . (1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊट, (4) गाड़ी, (5) फसल काटता हुआ किसान, (6) हाथी, (7) हाथ, (8) शेर, (9) कलश, (10) रेल का इंजन, (11) उदीयमान सूर्य, (12) तराजू, (13) फावड़ा, (14) गौरैया, (15) ट्रैक्टर तथा (16) दो पत्तियां ।
9. केरल . . . (1) साइकिल, (2) ऊट, (3) फलो सहित नारियल का पेड़, (4) मशाल, (5) कलश, (6) रेल का इंजन, (7) उदीयमान सूर्य, (8) तराजू, (9) गौरैया, (10) वृत्त के भीतर स्वस्तिक तथा (11) दो पत्तियां ।

1	2
10. मध्य प्रदेश	(1) साइकिल, (2) तीर-कमान, (3) अनाज बरसाता हुआ किसान, (4) हाथी, (5) घोड़ा और सवार, (6) शेर, (7) कलश, (8) रेल का इजन, (9) उदीयमान सूर्य, (10) फावड़ा और बेलचा, (11) वृत्त के भीतर स्वस्तिक तथा (12) दो पत्तियां।
11. महाराष्ट्र	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊट, (4) हाथी, (5) घोड़ा, (6) शेर, (7) कलश, (8) रेल का इजन, (9) उदीयमान सूर्य, (10) तराजू, (11) गौरैया (12) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (13) दो पत्तियां तथा (14) दो तलवार और एक छाल।
12. मणिपुर	(1) ऊट, (2) हाथी, (3) घोड़ा, (4) कलश, (5) तराजू तथा (6) फावड़ा।
13. मेघालय	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊट, (4) शेर, (5) कलश, (6) रेल का इजन, (7) तराजू, (8) फावड़ा, (9) गौरैया तथा (10) दो पत्तियां।
14. नागालैंड	(1) कबूतरों का जोड़ा, (2) तीर-कमान, (3) हाथी, (4) मशाल, (5) हार्नबिल, (6) लाग ड्रम, (7) मग तथा (8) चीता।
15. उड़ीसा	(1) वायुयान, (2) साइकिल, (3) नाव, (4) तीर-कमान, (5) ऊट, (6) ाघ, (7) ड्रम, (8) हाथी, (9) घोड़ा, (10) शेर, (11) कलश, (12) रेल का इजन तथा (13) दो पत्तियां।
16. पंजाब	(1) साइकिल, (2) तीर-कमान, (3) ऊट, (4) उड़ने के लिए तत्पर गरुड़, (5) हाथी, (6) मशाल, (7) घोड़ा, और सवार, (8) शेर, (9) रेल का इजन, (10) उदीयमान सूर्य, (11) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (12) ट्रैक्टर तथा (13) दो पत्तियां।
17. राजस्थान	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊट, (4) हाथी, (5) घोड़ा, (6) शेर, (7) उदीयमान सूर्य, (8) तराजू, (9) गौरैया, (10) दो पत्तियां तथा (11) छाता।
18. सिक्किम	(1) साइकिल, (2) तीर-कमान, (3) हाथी, (4) हाथ, (5) घोड़ा, (6) कलश, (7) उदीयमान सूर्य, (8) तराजू, (9) चीता, (10) दो पत्तियां तथा (11) छाता।
19. तमिलनाडु	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊट, (4) हाथी, (5) शेर (6) कलश, (7) तराजू (8) फावड़ा, (9) गौरैया, (10) वृत्त के भीतर स्वस्तिक तथा (11) दो पत्तियां।

1	2
20. त्रिपुरा . . .	(1) साइकिल, (2) घोडा, (3) शेर, (4) कलश, (5) उदीयमान सूर्य, (6) तराजू, (7) फावडा, (8) गौरैया, (9) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, तथा (10) दो पत्तियां ।
21. उत्तर प्रदेश . . .	(1) बाय्यान, (2) साइकिल, (3) नाव, (4) तीर-कमान, (5) ऊट, (6) कार, (7) बाध, (8) हाथी, (9) मछली, (10) मशाल, (11) हस्त चालित पम्प, (12) घोडा और सवार, (13) सीढ़ी, (14) शेर, (15) कलश, (16) रेल का इंजन, (17) उदीयमान सूर्य, (18) तराजू, (19) सिलाई की मशीन, (20) गौरैया, (21) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (22) ट्रैक्टर, (23) फसल काटते हुए दो किसान, तथा (24) दो पत्तियां ।
22. पश्चिमी बंगाल . . .	(1) मिर पर टोकरी ले जाते हुई स्त्री, (2) कबूतरों का जोडा, (3) साइकिल, (4) तीर-कमान, (5) ऊट, (6) फसल काटता हुआ किसान, (7) ड्रम, (8) उड़ने के लिए तैयार गरुड, (9) हाथी, (10) मछली, (11) मशाल, (12) हस्त चालित पम्प, (13) घोडा और सवार, (14) सीढ़ी, (15) शेर, (16) हल, (17) कलश, (18) रेडियो, (19) रेल का इंजन, (20) उदीयमान सूर्य, (21) तराजू, (22) सिलाई की मशीन, (23) पोत, (24) फावडा और बेलचा, (25) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (26) ट्रैक्टर, तथा (27) दो पत्तियां ।
23. ग्रन्थमान और निकोबार द्वीप समूह . . .	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) उदीयमान सूर्य, (4) तराजू, तथा (5) दो पत्तियां ।
24. अरुणाचल प्रदेश . . .	(1) नाव, (2) तीर-कमान, (3) हाथी, (4) मछली, (5) हाथ, (6) हार्नबिल, (7) घोडा, (8) मिथुन, (9) हल, (10) कलश, (11) उदीयमान सूर्य, (12) तराजू, (13) फावडा, (14) चीता, (15) दो पत्तियां तथा (16) छाता ।
25. चण्डीगढ़ . . .	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊट, (4) घोडा, (5) रेल का इंजन, (6) उदीयमान सूर्य, (7) तराजू, (8) ट्रैक्टर, तथा (9) दो पत्तियां ।
26. दादरा और नागर हवेली . . .	(1) साइकिल, (2) घोडा, (3) तराजू तथा (4) दो पत्तियां ।

1	2
27. दिल्ली . . .	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) तीर-कमान, (4) ऊंट, (5) हाथी, (6) मशाल, (7) घोड़ा और सवार, (8) सीढ़ी, (9) शेर, (10) कलश, (11) उदीयमान सूर्य, (12) तराजू, तथा (13) दो पत्तियां ।
28. गोश्रा, वमण और वीव . . .	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊंट, (4) घोड़ा, (5) कलश, (6) तराजू, तथा (7) फावड़ा ।
29. लक्षद्वीप . . .	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊंट, (4) हाथी, (5) घोड़ा, (6) तराजू, (7) फावड़ा, तथा (8) दो पत्तियां ।
30. मिजोरम . . .	(1) साइकिल, (2) नाव, (3) ऊंट, (4) उड़ने के लिए तत्पर गरुड़, (5) शेर, (6) कलश, (7) रेल का इंजन, (8) तराजू, (9) फावड़ा, (10) फावड़ा और बेलचा, (11) गोरैया, तथा (12) दो पत्तियां ।
31. पांडिचेरी . . .	(1) साइकिल, (2) घोड़ा और सवार, (3) सीढ़ी, (4) शेर, (5) रेल का इंजन, (6) तराजू, (7) फावड़ा, तथा (8) गोरैया ।

[सं० 56/77-II]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निबन्धक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

